



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 चैत्र 1940 (श10)  
(सं0 पटना 273) पटना, सोमवार 26 मार्च 2018

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना  
9 मार्च 2018

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-02/2018—215— चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है,

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बिहार राज्य सहकारी बैंक की उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 12.04.2018 (गुरुवार) की तिथि नियत करता है तथा राज्य सहकारी बैंक के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ उपविधियां तथा प्राधिकार के निदेशों के अधीन राज्य सहकारी बैंक (आगे इसे सिर्फ समिति के नाम से संबोधित किया गया है) के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि उक्त समिति की अंतिम मतदाता सूची दिनांक 31.01.2018 की कट-ऑफ तिथि के आधार पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 01.03.2018 को प्रकाशित की जा चुकी है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (vii) किन्तु चूंकि बिहार राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या (जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के वर्ग से अध्यक्ष सहित कुल 14 निदेशक, जिसमें 3 पद प्रोफेशनल कोटि से तथा राज्य स्तरीय सहकारी समिति के वर्ग से 1 निदेशक) 15 (पन्द्रह) है, अतएव उनका आरक्षण आदर्श रोस्टर बिंदु के अनुसार किया जायेगा। तदनुसार संलग्न प्रपत्र-1 में आरक्षणवार पदों का उल्लेख कर दिया गया है।

राज्य सहकारी बैंक के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 15.03.2018 को संलग्न प्रपत्र -1 (परिशिष्ट 2) में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त समिति के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को निर्वाचन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका में अंकित प्रपत्र ई० 6 में विद्यमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल ([bseapatna@gmail.com](mailto:bseapatna@gmail.com)) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,  
फूल सिंह,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल के पदधारकों के  
निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	-	15.03.2018(गुरुवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	-	02.04.2018 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	-	03.04.2018 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	-	04.04.2018 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	-	12.04.2018(गुरुवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	-	12.04.2018(अपराह्न 3-4 बजे से)

## परिशिष्ट-2

## राज्य सहकारी बैंक निर्वाचन

## प्रपत्र-1

## सूचना का प्रपत्र

बिहार राज्य सहकारी बैंक, .....निबंधन संख्या....., पता .....के निदेशक मंडल का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है, मैं..... (निर्वाचन पदाधिकारी का नाम).निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

## आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 15 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
<b>जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के वर्ग से</b>	
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
निदेशक	13
<ul style="list-style-type: none"> <li>अनु० जाति/अनु० जनजाति कोटि</li> <li>पिछड़ा वर्ग कोटि</li> <li>अतिपिछड़ा वर्ग कोटि</li> <li>सामान्य कोटि</li> <li>प्रोफेशनल कोटि</li> </ul>	02 पद (आरक्षित), जिसमें से 50% पद महिला के लिए 02 पद (आरक्षित), जिसमें से 50% पद महिला के लिए 02 पद (आरक्षित), जिसमें से 50% पद महिला के लिए 04 पद (अनारक्षित), जिसमें से 50% पद महिला के लिए 03 पद, सामान्य-2 पद, जिसमें से 50% पद महिला के लिए, अतिपिछड़ा वर्ग-1 पद
<b>राज्यस्तरीय सहकारी समितियों के वर्ग से</b>	
निदेशक	01 (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को..... (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक ..... (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक..... तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को..... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

- (v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न ..... बजे के पूर्व तक .....  
.....(स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।
- (vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....(स्थान का नाम) को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे  
अपराह्न तक होगा।
- (Vii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से..... पर की जायेगी।

स्थान-  
तिथि

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 273-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>